

ब्लैक डेथ

साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ब्लैक डेथ की पहचान आधुनिक उत्तरी अफ्रीका में 1338-1339 के आसपास हुई थी। लगभग 7-8 वर्ष पहले इसने दुनिया के बड़े हिस्से को नुकसान पहुँचाया था।

ब्लैक डेथ

- ब्लैक डेथ शब्द **बुबोनिक प्लेग** को संदर्भित करता है जो वर्ष 1346-53 में **पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप में फैला**।
- अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि ब्लैक डेथ, जिसने लाखों लोगों की जान ली थी, **यर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु** के कारण हुई थी और **पसिसू** द्वारा फैल गई थी जिसके **मेज़बान कृंतक (चूहा गलिहरी आदि कतरने वाले जानवर) थे**।
- सूक्ष्मजीव यर्सिनिया पेस्टिस मानव आबादी में फैल गया, जिनोंने इसे मानव पसिसू के वेक्टर के माध्यम से या सीधे श्वसन प्रणाली के माध्यम से दूसरों को प्रेषित किया।
- महामारी के बारे में लिखने वाले **समकालीनों ने अक्सर बुबो (कठोर, सूजन वाले लम्फ नोड्स) को वशिष्ट नैदानिक विशेषता** के रूप में वर्णित किया।
- 14वीं शताब्दी में जनसांख्यिकीय वनाश के कारण महामारी को **'ग्रेट डेथ'** के रूप में संदर्भित किया गया था।
- उस समय व्यापक ऐतिहासिक डेटा की कमी के कारण मरने वालों की सही संख्या जानना मुश्किल है।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/black-death>